



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public
Interest

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), राँची का कार्यालय,
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

शाखा कार्यालय: निवासी लेखापरीक्षा कार्यालय, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई
Office of the Principal Director of Audit (Steel), Ranchi
Indian Audit & Accounts Department
Branch Office: Resident Audit Office, Bhilai Steel Plant, Bhilai
☎ BSP-60087; 0788- 2227824 Fax-2221028
E-mail: raobspaudit@gmail.com

सेवा में,

सभी माननीय संस्थान प्रमुख,

विषय: हमारे कार्यालय के द्वारा आयोजित अंतर नराकास "हिंदी प्रश्न मंजूषा - 2021" में भाग लेने के लिए अनुरोध



महोदय/ महोदया

हम सभी जानते हैं कि हिंदी पूरे समाज एवं राष्ट्र के लिए संवाद का एक व्यापक माध्यम है। यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में, राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने में, समाज में वर्ग-भेद को मिटाने में हमारी सहायक है। इसीलिए हिंदी के निरंतर एवं व्यापक प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी काम-काज में इसे 'राजभाषा' का दर्जा दिया गया है। इसीलिए हिंदी के प्रति हमारे भी कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं।

'भिलाई-दुर्ग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' की राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान है। हमारा कार्यालय भी इस नराकास का एक सदस्य है। हमारे कार्यालय ने **5 जनवरी 2022 (बुधवार)** को भिलाई-दुर्ग नराकास स्तर पर "हिंदी प्रश्न मंजूषा - 2021" कार्यक्रम आयोजित करने का विचार किया है। इस अवसर का उपयोग हमलोग सिर्फ इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि एक-दूसरे के संगठन के कार्य-कलाप को समझने और आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए भी करना चाहते हैं। अतः अनुरोध है कि इस अवसर पर आप अपने संस्थान की सक्रिय हिस्सेदारी सुनिश्चित करके इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में हमारा सहयोग करें। साथ ही आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति का हमारे उत्साहवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

कार्यक्रम संबंधी विवरण का उल्लेख आगे के पृष्ठ में किया गया है।

राजुल कुमार दत्ता
वरीय निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी एवं
सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

'हिंदी प्रश्न मंजूषा - 2021' कार्यक्रम के आयोजन का विवरण

1	कार्यक्रम स्थल	भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात भवन के सामने स्थित 'मानव संसाधन विभाग' का सभागार
2	कार्यक्रम का समय	5 जनवरी 2022 (बुधवार) अपराह्न 01.30 बजे से
3	नियम	<p>i. एक दल में दो सदस्य होंगे।</p> <p>ii. इसमें विभिन्न चक्र होंगे।</p> <p>iii. प्रथम चक्र में लिखित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके लिए 45 मिनट दिये जाएँगे। ये प्रश्न हिंदी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, जैसे, साहित्य, मनोरंजन, संगीत, खेल-कूद, राजनीति, इतिहास, ताजा घटना, सामान्य-ज्ञान, इत्यादि से संबंधित होंगे। इसमें सभी प्रतिभागी दल को भाग लेना अनिवार्य है।</p> <p>iv. इनमें वरीयता के आधार पर 4 दल का चयन किया जाएगा जो फाइनल राउंड में प्रवेश करेंगे।</p> <p>v. फाइनल चक्र में दृश्य-श्रव्य माध्यम से प्रश्न होंगे। इसमें भी हिंदी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, जैसे, साहित्य, मनोरंजन, संगीत, खेल-कूद, राजनीति, इतिहास, ताजा घटना, सामान्य-ज्ञान, इत्यादि से संबंधित प्रश्न होंगे।</p> <p>vi. जीवन-दायिनी (Life Line) साधन के उपयोग का भी अवसर रहेगा, जिसकी जानकारी कार्यक्रम में ही दी जायेगी।</p> <p>vii. इनमें से अंकों की वरीयता के आधार पर तीन दल को प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा।</p> <p>viii. दर्शकों से अलग से प्रश्न पूछे जायेंगे। सही उत्तर पर उन्हें तत्क्षण पुरस्कृत किया जाएगा।</p> <p>ix. निर्णायक-समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।</p>
4	आवेदन की प्रक्रिया	<p>i. सदस्य संस्थान दो दल को नामित कर सकते हैं।</p> <p>ii. सभी सदस्य संस्थानों से प्रतिभागियों के आवेदन 31 दिसंबर 2021 तक हमारे कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। इसमें संस्थान का नाम; प्रतिभागी का नाम; प्रतिभागी का पदनाम; प्रतिभागी का मोबाइल नंबर का उल्लेख होना चाहिए।</p> <p>iii. आवेदन ई-मेल के द्वारा इस पते पर भेजा जा सकता है: raobspaudit@gmail.com</p> <p>iv. प्रतिभागियों को अपने संस्थान का परिचय-पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p>

कार्यक्रम की रूपरेखा

विवरण		दिनांक- 05.01.2022 (अपराह्न)
1	उपस्थित प्रतिभागियों का पंजीकरण	02.00 तक
2	कार्यक्रम का उदघाटन	02.00 - 02.15
3	प्रतियोगिता के प्रथम चक्र की शुरुआत	02.15 - 03.00
4	प्रतियोगिता के आगे के चक्र	03.15 - 05.00
5	पुरस्कार वितरण, प्रमुख अतिथियों का संबोधन, धन्यवाद ज्ञापन, जलपान,	05.00 - 05.30

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं:

श्री राजुल दत्ता	9407984986
श्री सुधीर हरणे	9407984895
श्री जितेंद्र वर्मा	9407984817

निवासी लेखा
परीक्षा कार्यालय,
भिलाई
के द्वारा प्रस्तुत

हिंदी
प्रश्न
मंजूषा
2021



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

[5 जनवरी 2022]

“प्रश्न मंजूषा” में निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे

- ❖ हिन्दी साहित्य एवं साहित्यकार
- ❖ खेल और सिनेमा जगत
- ❖ सामान्य ज्ञान - देश-प्रदेश , व्यक्ति एवं स्थान विशेष, ऐतिहासिक घटनाएँ
 - जीवन रेखा (Life Line)
 - दर्शक दीर्घा (Audience Help) और
 - विशेषज्ञ की राय (Expert Opinion)
- ❖ स्क्रीनिंग राउंड (लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

संस्थानों से अधिकतम प्रतिभागिता का अनुरोध है